



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – FINAL YEAR (SESSION 2024-25) (June-July)

SUBJECT: INCOME TAX LAW AND PRACTICES

(MAJOR-C3- COMA 1D)

NEP-2020
MAJOR
SUBJECTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:—

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक के प्रश्न लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

प्र.1 कर निर्धारण वर्ष से आप क्या समझते हैं।

Define the Assessment Year

प्र.2 मकान किराया भत्ता क्या है।

What is House Rent allowance?

प्र.3 व्यापार एवं पेशे से आय को समझाइये।

Explain the income for Business and profession?

प्र.4 पूंजी लाभ क्या हैं।

What is Capital Gains?

प्र.5 पैन को परिभाषित कीजिए।

Define PAN.

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक के प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

प्र.6 आयकर अधिनियम के अंतर्गत 10 कर मुक्त आयों के नाम लिखिए

Give any ten exempted income under Income Tax Act.

प्र.7 वेतन शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों की विस्तार से विवेचना कीजिए।

Discuss fully the deduction allowable under the head salaries.

प्र.8 व्यापार की आय निकालने के लिए कौन-कौन सी छूटे स्वीकृत हैं।

What are the allowance that are admissible in determining the income from business.

प्र.9 आयकर प्राधिकारी के कार्य क्या-क्या हैं।

What are the functions of the Income Tax Authority?

प्र.10 आयकर के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत मे से कर योग आय को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है।

How is the taxable income of a person determined as per Income Tax?



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – FINAL YEAR (SESSION 2024-25) (June-July)

SUBJECT: INCOME TAX LAW AND PRACTICES

(MAJOR-C3- COMA 1D)

NEP-2020
MAJOR
SUBJECTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक के प्रश्न लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

- प्र.1 कुल आय क्या है।
What is Total Income?
- प्र.2 वेतन को परिभाषित कीजिए।
Define Salary.
- प्र.3 वे हानियाँ लिखिए जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है।
Name the losses which can be carried forward?
- प्र.4 कर निर्धारण अधिकारी कौन है।
Who is an Assessing Officer?
- प्र.5 रिटर्न की ई-फाइलिंग को परिभाषित करें।
Define e-filing of return.

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक के प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

- प्र.6 आंशिक कृषि आय के कोई दो उदाहरण लिखिए।
Give two examples of partly Agriculture Income.
- प्र.7 'वेतन से आय' शीर्षक के अंतर्गत एक विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है।
Who is a specified employee under the head of income from salary?
- प्र.8 दीर्घकालीन पूंजी लाभ को समझाइए।
Explain the long-term Capital Gain.
- प्र.9 धारा 80 जी के अंतर्गत कटौती को समझाइए।
Explain the Deduction u/s 80G.
- प्र.10 अपीलीय प्राधिकरण का सदस्य कौन हो सकता है।
Who can be member of Appellate Tribunal?



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – FINAL YEAR (SESSION 2024-25) (June-July)

SUBJECT: GOODS AND SERVICE TAX AND CUSTOM DUTY

(MAJOR-C3- COMA 2D)

NEP-2020
MAJOR
SUBJECTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- FIRST

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक के प्रश्न लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

प्र.1 भारत में लागू जीएसटी के प्रमुख लक्षण बताइए।

Mention the main features of GST in India.

प्र.2 माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की विधि को समझाइए।

Define the procedure for registration under GST Act.

प्र.3 कम्पोजिशन संबंधी व्यावहारिक समस्याएँ क्या हैं।

What are the practical problem related to composition?

प्र.4 जॉब वर्क से क्या आशय है।

What is meant by Job work?

प्र.5 सीमा शुल्क का महत्व समझाइए।

Explain the importance of customs duty?

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक के प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

प्र.6 जीएसटी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के प्रावधान समझाइए।

Discuss the provisions u/s 9 of GST Act regarding levy and collections of Tax?

प्र.7 माल एवं सेवाकर के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले लेखों एवं अभिलेखों संबंधी प्रावधान समझाइए।

Discuss provisions relating to keep and maintain accounts and records by a registered person under GST?

प्र.8 कम्पोजिशन की दशा में कर की दरें संबंधी नियम क्या हैं ?

What are the rules regarding tax rates in case of composition.

प्र.9 जाब वर्क संबंधी प्रावधान को समझाइए।

Explain the provisions related to Job Work.

प्र.10 सीमा शुल्क के प्रकार को समझाइए।

Explain the types of Customs duty.



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Accredited with "A" Grade by NAAC

BACHELOR OF COMMERCE (BCOM) – FINAL YEAR (SESSION 2024-25) (June-July)

SUBJECT: GOODS AND SERVICE TAX AND CUSTOM DUTY

(MAJOR-C3- COMA 2D)

NEP-2020
MAJOR
SUBJECTS

ASSIGNMENT QUESTION PAPER- SECOND

MAXIMUM MARKS: 30

निर्देश:-

01. सभी प्रश्न स्वयं की हस्तलिपि में हल करना अनिवार्य है।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में ही सत्रीय प्रश्नपत्र हल करना अनिवार्य है।
03. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को सावधानीपूर्वक पूरा भरें और उसमें उसी विषय का प्रश्नपत्र हल करें जो उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है।
04. सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर उसकी पावती अवश्य प्राप्त करें।

नोट: प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक के प्रश्न लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का है।

प्र.1 जीएसटी को परिभाषित कीजिए।

Define GST.

प्र.2 माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कर मुक्त माल की सूची बनाए।

List the Tax free goods under GST.

प्र.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।

What is Input Tax Credit?

प्र.4 शून्य दर पूर्ति से क्या आशय है।

What do you mean by Zero Rated supply?

प्र.5 सीमा शुल्क की परिभाषा एवं प्रकृति को समझाओं।

Explain the definition and Nature of customs duties.

नोट: प्रश्न क्रमांक 06 से 10 तक के प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का है।

प्र.6 भारत में माल एवं सेवा कर की संरचना समझाइए एवं इसका वर्गीकरण कीजिए।

Discuss the structure of Goods and Services Tax in India and mention its classification.

प्र.7 जीएसटी के अंतर्गत भुगतान के प्रावधान, नियम एवं प्रक्रिया को समझाइए।

Discuss the provisions, rules and procedure for payment of GST.

प्र.8 जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजिशन लेवी योजना क्या है। इन योजना के प्रमुख लक्षण समझाइए।

What is Composition levy scheme under GST? Discuss main features of the scheme.

प्र.9 एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण संबंधी प्रावधानों की विविचना कीजिए।

Discuss the provisions of Integrated Goods and Services Tax Act (IGST) regarding levy and collection to Tax.

प्र.10 सीमा शुल्क की गणना करने की विधि क्या है।

What is the method of Calculations customs duty?